



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

30 अप्रैल 2025

## अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा ब्याज दरें – अप्रैल 2025

अप्रैल 2025 माह के दौरान प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) की [ऋण और जमा ब्याज दरों](#) के आंकड़े तालिका 1 से 7 में दर्शाए गए हैं।

### मुख्य बातें:

#### ऋण दरें:

- एससीबी के नए रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) मार्च 2025 में 9.35 प्रतिशत (फरवरी 2025 में 9.40 प्रतिशत) रही।
- एससीबी के बकाया रुपया ऋणों पर डब्ल्यूएलआर फरवरी 2025 में 9.80 प्रतिशत से घटकर मार्च 2025 में 9.77 प्रतिशत हो गई।<sup>1</sup>
- एससीबी की एक वर्ष की माध्यिका निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) अप्रैल 2025 में 9.00 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी रही। 1

#### जमा ब्याज दरें:

- एससीबी के नए रुपया मीयादी जमा पर भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) फरवरी 2025 में 6.49 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2025 में 6.65 प्रतिशत रही।
- एससीबी के बकाया रुपया मीयादी जमा पर भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) मार्च 2025 में 7.03 प्रतिशत (फरवरी 2025 में 7.02 प्रतिशत) थी।<sup>1</sup>

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/223

अजीत प्रसाद

उप महाप्रबंधक (संचार)

<sup>1</sup> बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है।